


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1979/आसाढ़ 2, 1901
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1979/ASADHA 2, 1901

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारतीय खाद्य निगम

अधिलेखना

नई दिल्ली, 23 जून, 1979

संख्या : 9-2/79-ई० पी०—भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37)
की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से
भारतीय खाद्य निगम निम्न विनियम बनाकर भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम
1971 में इस प्रकार संशोधन करता है :—

1 (1) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (63वां संशोधन) विनियम,
1979 कहें जाएंगे।

(2) ये 21 जून, 1979 से लागू हुए माने जाएंगे।

2. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) अधिनियम, 1971 के परिशिष्ट 2 के क्रमांक 4 के 5, 6 और सात कालमों में की गई व्यवस्थाएँ संशोधित होकर अब इस प्रकार पढ़ी जाएंगी :-

श्रेणी	शास्त्रियाँ लगाने के लिए, मध्यम प्राधिकारी श्रेणी और शास्त्रियाँ जो लगाई जा सकती हैं प्राधिकारी पदाधिकारी शास्त्रियाँ		
	5	6	7
श्रेणी I			
अधिकारी प्रभागध्यक्षों को छोड़कर	प्रबंध निदेशक बोर्ड	सभी, बख्शीस्ती/ पदच्युति को छोड़कर सभी	अध्यक्ष बोर्ड
प्रभागध्यक्ष	प्रबंध निदेशक बोर्ड	सभी, बख्शीस्ती/ पदच्युति को छोड़कर सभी	अध्यक्ष बोर्ड

एम० के० गग, कार्मिक प्रबन्धक

THE FOOD CORPORATION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 1979

No. 9-2/79-EP.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971, namely :—

1. (1) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (63rd amendment) Regulations, 1979.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 21st June, 1979.

2. The existing provisions under columns 5, 6 & 7 of Serial No. 4 of Appendix 2 of the FCI (Staff) Regulations, 1971 shall be amended to read as under:—

Category	Authority competent to impose penalties and penalties it may impose		Appellate Authority
	Authority	Penalties	
	5	6	7
CATEGORY I			
Officers other than Heads of Division	Managing Director Board	All except dismissal/ removal All	Chairman Board
Heads of Division	Managing Director Board	All except dismissal/ removal All	Chairman Board

M.K. GARG, Personnel Manager.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979

21137
9/1/79